

D (Printed Pages 4)
(20721) Roll No.
BBA-VI Sem.

18072 (CV-II)

B.B.A. Examination, June-2021

**FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE
(BBA-606)**

Time : 1½ Hours [Maximum Marks : 75

Note : Attempt all the sections as per instructions.

नोट : सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए।

Section - A/ खण्ड - अ

(Very Short Answer Type Questions)

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any **two** questions. Each question carries 7.5 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words. $2 \times 7.5 =$

नोट : किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न अंक का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है।

P.T.O.

1. What are the types of E-commerce?
ई-कॉमर्स के प्रकार क्या हैं?
2. Define Encryption.
एनक्रिप्शन को परिभाषित करें।
3. What are the required facilities for electronic payment method?
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधि के लिए आवश्यक सुविधाएं क्या हैं?
4. Define Secure Electronic Transaction.
सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को परिभाषित करें।
5. Define Electronic Data Interchange.
इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज को परिभाषित करें।

Section - B/ खण्ड - ब

(Short Answer Type Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any **one** question out of the following three questions. Each question carries 15 marks. Short answer is required not exceeding 200 words. $1 \times 15 = 15$

नोट : निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है।

18072 (CV-II)/2

6/ Explain the legal issues of internet commerce.

इन्टरनेट कॉमर्स के कानूनी मुद्दों की व्याख्या करें।

7. Explain digital currencies and payment system.

डिजिटल मुद्राओं और भुगतान प्रणाली की व्याख्या करें।

8. What are features of E-Commerce Providers?

ई-कॉमर्स प्रदाताओं की विशेषताएं क्या हैं?

Section - C/ खण्ड - स

(Long Answer Type Questions)

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any **two** questions out of the following **five** questions. Each question carries 22.5 marks. Answer is required in details. $2 \times 22.5 = 45$

नोट : निम्नलिखित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 22.5 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है।

9. What is E-Commerce? Explain its features and compare E-commerce practices with Traditional Practices.

ई-कॉमर्स क्या है? इसकी विशेषताएं लिखिए और परम्परागत प्रथाओं और ई-कॉमर्स प्रथाओं की तुलना करें।

10. Define internet? Explain its role and procedure of registering internet domain.

इन्टरनेट को परिभाषित करें। इसकी क्या भूमिका है और इन्टरनेट डोमेन को पंजीकृत करने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। https://www.ccsustudy.com

11. Define digital case. Explain with examples how an online banking system works.

डिजिटल केश को परिभाषित करें। ऑन लाइन बैंकिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है। उदाहरण के साथ व्याख्या करें।

12. What are the component of Electronic Data Interchange?

इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज के घटक क्या हैं?

13. Explain the ways and means of protecting online website operations from hackers.

ऑनलाईन वेबसाइट ऑपरेशन को हैकर्स से बचाने के तरीके और उपाय बताएं।

D (Printed Pages 4)
(20721) Roll No.
BBA - VI Sem.

18071 (CV-II)

B.B.A. Examination, June-2021

AUDITING

(BBA-605)

Time : 1½ Hours] [Maximum Marks : 75

Note : Attempt questions from **all** Sections as per instructions.

Section-A

(Very Short Answer Type Questions)

Note : Attempt any **two** questions. Each question carries 7.5 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words. $2 \times 7.5 = 15$

1. What is internal audit?
2. Explain Balancesheet Audit?

P.T.O

3. What are the different types of Auditor's Report?
4. Describe the advantages of continuous Audit?
5. Explain Tax Audit?

Section-B

(Short Answer Type Questions)

Note : Attempt any **one** question out of the following **three** questions. Each question carries **15** marks. Short answer is required not exceeding 200 words. $1 \times 15 = 15$

6. Discuss the advantages of interim audit? What precautions should be taken while performing test checking?
8. Explain the significance of Vouching?

18071(CV-II)/2

Section-C

(Long Answer Type Questions)

Note : Attempt any **two** questions out of the following five questions. Each question carries 22.5 marks. Answer is required in detail? $2 \times 22.5 = 45$

9 ✓ "Auditing begins where Accountancy ends" Explain. How does Accountancy differ from Auditing?

10. What is Audit programme? What steps would you take before commencing the actual work of Audit of a business?

11. ✓ "An Auditor is a watch-dog and not a blood-hound". Give your comments on the above statement and discuss the duties and liabilities of an Auditor.?

18071(CV-II)/3

P.T.O.

12. What is Cost Audit. Describe the provisions of Companies with regard to the Cost Audit?
13. What points are to be Considered for audit of a University?

<https://www.ccsustudy.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से

D (Printed Pages 4)
(20721) Roll No.
BBA-VI Sem.

18072 (CV-II)

B.B.A. Examination, June-2021

**FUNDAMENTAL OF E-COMMERCE
(BBA-606)**

Time : 1½ Hours [Maximum Marks : 75

Note : Attempt all the sections as per instructions.

नोट : सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए।

Section - A/ खण्ड - अ

(Very Short Answer Type Questions)

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any **two** questions. Each question carries 7.5 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words. $2 \times 7.5 =$

नोट : किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न अंक का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है।

P.T.O.

1. What are the types of E-commerce?
ई-कॉमर्स के प्रकार क्या हैं?
2. Define Encryption.
एनक्रिप्शन को परिभाषित करें।
3. What are the required facilities for electronic payment method?
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधि के लिए आवश्यक सुविधाएं क्या हैं?
4. Define Secure Electronic Transaction.
सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को परिभाषित करें।
5. Define Electronic Data Interchange.
इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज को परिभाषित करें।

Section - B/ खण्ड - ब

(Short Answer Type Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any **one** question out of the following three questions. Each question carries 15 marks. Short answer is required not exceeding 200 words. $1 \times 15 = 15$

नोट : निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है।

18072 (CV-II)/2

6/ Explain the legal issues of internet commerce.

इन्टरनेट कॉमर्स के कानूनी मुद्दों की व्याख्या करें।

7. Explain digital currencies and payment system.

डिजिटल मुद्राओं और भुगतान प्रणाली की व्याख्या करें।

8. What are features of E-Commerce Providers?

ई-कॉमर्स प्रदाताओं की विशेषताएं क्या हैं?

Section - C/ खण्ड - स

(Long Answer Type Questions)

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any **two** questions out of the following **five** questions. Each question carries 22.5 marks. Answer is required in details. $2 \times 22.5 = 45$

नोट : निम्नलिखित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 22.5 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है।

9. What is E-Commerce? Explain its features and compare E-commerce practices with Traditional Practices.

18072 (CV-II)/3

P.T.O.

ई-कॉमर्स क्या है? इसकी विशेषताएं लिखिए और परम्परागत प्रथाओं और ई-कॉमर्स प्रथाओं की तुलना करें।

10. Define internet? Explain its role and procedure of registering internet domain.

इन्टरनेट को परिभाषित करें। इसकी क्या भूमिका है और इन्टरनेट डोमेन को पंजीकृत करने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। https://www.ccsustudy.com

11. Define digital case. Explain with examples how an online banking system works.

डिजिटल केश को परिभाषित करें। ऑन लाइन बैंकिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है। उदाहरण के साथ व्याख्या करें।

12. What are the component of Electronic Data Interchange?

इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज के घटक क्या हैं?

13. Explain the ways and means of protecting online website operations from hackers.

ऑनलाईन वेबसाइट ऑपरेशन को हैकर्स से बचाने के तरीके और उपाय बताएं।

18072 (CV-II)/4

D (Printed Pages 7)
(20721) Roll No.
B.B.A.- VI Sem.

18069 (A) (CV-II)
B.B.A. Examination, June-2021
GOODS AND SERVICES TAX
(BBA-603)
(New)

Time : 1½ Hours [Maximum Marks : 75]

Note : Attempt **all** the sections as per instructions.

नोट : सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए।

Section - A/ खण्ड - अ

(Very Short Answer Type Questions)

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : This Section contains **five** questions. Attempt any **two** questions. Each

नोट : इस खण्ड में पाँच प्रश्न हैं, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंकों का है।

P.T.O.

1. Define Goods under GST Act.

माल को माल सेवा कर अधिनियम में परिभाषित कीजिए।

2. Explain the term "Business Vertical".

व्यवसाय ऊर्ध्वाधर शब्द को समझाइये।

3. Who may become the member of GST Council?

माल सेवा कर परिषद का कौन सदस्य हो सकता है?

4. Narrative the Capital structure of GSTN.

माल सेवा कर नेटवर्क के पूंजी ढाँचे का बयान करिए।

5. Who is to pay tax under reverse charge?
रिवर्स चार्ज में कर का भुगतान कौन करता है?

Section - B/ खण्ड - ब

(Short Answer Type Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : This section contains **three** questions.

Attempt any **one** question. Each question carries 15 marks. 1×15=15

18069 (A) (CV-II)/2

नोट : इस खण्ड में तीन प्रश्न हैं। किसी एक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है।

नोट : इस खण्ड में तीन प्रश्न हैं। किसी एक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है।

6. Explain in brief the various types of GST. माल सेवा कर के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में समझाइये।
7. Mr Nimit is a travel agent, he booked domestic Air tickets worth Rs. 6,00,000 in the month of December, 2020 and booked International tickets worth Rs. 14,00,000. Determine the value of supply of services for the month of December, 2020.

6. Explain in brief the various types of GST. माल सेवा कर के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में समझाइये।
7. Mr Nimit is a travel agent, he booked domestic Air tickets worth Rs. 6,00,000 in the month of December, 2020 and booked International tickets worth Rs. 14,00,000. Determine the value of supply of services for the month of December, 2020. <https://www.ccsustudy.com>

मि. निमित एक ट्रैवल एजेंट हैं, उसने दिसम्बर, 2020 में रु. 6,00,000 के घरेलू उड़ान के टिकट बुक किये और रु. 14,00,000 के अन्तर्राष्ट्रीय टिकट बुक किये। दिसम्बर, 2020 माह के लिए उसकी सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए।

मि. निमित एक ट्रैवल एजेंट हैं, उसने दिसम्बर, 2020 में रु. 6,00,000 के घरेलू उड़ान के टिकट बुक किये और रु. 14,00,000 के अन्तर्राष्ट्रीय टिकट बुक किये। दिसम्बर, 2020 माह के लिए उसकी सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए।

8. What is the difference between composite supply and Mixed supply?
समग्र आपूर्ति एवं मिश्रित आपूर्ति में क्या अंतर है?

Section - C/ खण्ड - स

(Descriptive Answer Questions)

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : This section contains **six** questions, attempt any **two** questions. Each question carries 22.5 marks. Answer must be descriptive. $2 \times 22.5 = 45$

नोट : इस खण्ड में छः प्रश्न हैं, किन्हीं दो को हल कीजिये। प्रत्येक 22.5 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है।

9. Explain the composition scheme.
Elaborate its merits and demerits.

कंपोजिशन स्कीम को समझाइये। इसके गुण-दोषों की विस्तृत विवेचना करिए।

10. What are the main features of GST payment process?
माल सेवा कर भुगतान प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

11. What is the procedure for registration under GST Act? Explain mandatory registration.

माल सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है? अनिवार्य पंजीकरण को समझाइये।

12. Write short note on the following :

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (a) Debit note and Credit note.

डेबिट नोट एवं क्रेडिट नोट।

- (b) Difference between Tax invoice and Retail invoice.

कर-बीजक एवं फुटकर बीजक में अन्तर करिए।

13/ Which returns are mandatory to file under GST law? Explain any three in details.

माल सेवा कर कानून में कौन-सी रिटर्न अनिवार्य हैं? किन्हीं तीन को विस्तार से समझाइये।

14. Rubal sells an A.C. to Soham for Rs. 80,000 offering a 2% discount. Rubal incurs Rs. 2,400 as packing charges on said A.C. to encourage prompt payment Rubal offers additional 2% discount, if Soham pays within 15 days.

Determine -

- (a) The value of A.C. shown in invoice if GST is 12%
- (b) If Soham pays within 15 days, Then show the amount of credit note.

रुबल - एक ए.सी. सोहम को रु. 80,000 में 2% छूट के प्रस्ताव पर विक्रय करती हैं। उस ए.सी. पर रुबल

द्वारा रु. 2400 पैकिंग व्यय किया जाता है। यदि सोहम 15 दिनों में भुगतान करता है तो उसे प्रोत्साहन के रूप में 2% अतिरिक्त छूट का प्रस्ताव भी दिया गया।

निर्धारित करिए :

- (क) बीजक में दर्शायी गई ए.सी. के मूल्य को, यदि जी.एस.टी. की दर 12% है।
- (ख) यदि सोहम 15 दिनों में भुगतान करता है, तो क्रेडिट नोट की राशि बताइये।

D (Printed Pages 4)
(20721) Roll No.
BBA-VI Sem.

3. What is EU?
4. Discuss export assistance.
5. What are the functions of IMF?

18067 (CV-II)

B.B.A. Examination, June-2021

Section-B

INTERNATIONAL TRADE

(Short Answer Type Questions)

(BBA-604)

Note : Attempt any **one** questions out of the following **three** questions. Each question carries 15 marks. Short answer is required not exceeding 200 words. 1×15=15

Time : 1½ Hours] [Maximum Marks : 75

Note : Attempt questions from **all** sections as per instructions.

Section-A

(Very Short Answer Type Questions)

Note : Attempt any **two** questions. Each question carries 7.5 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words. 2×7.5=15

1. Explain recent trends in World Trade
2. Discuss balance of payments. ✓

6. ✓ What is meant by balance of trade? Explain the difference between balance of trade and balance of payments.
7. Explain the meaning and main objectives of monetary policy.
8. Discuss the basics of International Trade.

P.T.O.

8067 (CV-II)/2

Section-C

(Long Answer Type Questions)

Note : Attempt any two questions, out of the following five questions. Each question carries 22.5 marks. Answer is required in detail. $2 \times 22.5 = 45$

9. Explain the modern theory of International Trade. <https://www.ccsustudy.com>
10. Discuss the importance of Foreign Trade in economic growth of a country.
11. Discuss the role of International economic institutions in economic growth in India.
12. Explain the recent trends in India's foreign trade and discuss projects & consultancy exports.

18067 (CV-II)/3

P.T.O.

13. Discuss India's Trade Policy, export assistance and marketing plan for exports.

<https://www.ccsustudy.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से

D (Printed Pages 4)
(20721) Roll No.
BBA-VI Sem.

18070 (CV-II)

B.B.A. Examination, June-2021

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

(BBA-601)

Time : 1½ Hours] [Maximum Marks : 75

Note : Attempt questions from **all** Sections as per instructions.

Section-A

(Very Short Answer Type Questions)

Note : Attempt any **two** questions. Each question carries 7.5 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words. $2 \times 7.5 = 15$

✓ 1. What do you understand by Management Information System?

P.T.O.

2. Explain the Organizational Decision making.
- ✓ 3. What do you mean by System Analysis?
4. Discuss ERP (Enterprise Resource Planning).
5. What is Business Planning?

Section-B

(Short Answer Type Questions)

Note : Attempt any **one** question out of the following **three** questions. Each question carries 15 marks. Short answer is required not exceeding 200 words. $1 \times 15 = 15$

6. Explain the strategies for determining the Information requirement.
- ✓ 7. Explain process of the Management.

18070(CV-II)/2

https://www.ccsustudy.com

https://www.ccsustudy.com

https://www.ccsustudy.com

https://www.ccsustudy.com

8. Describe the concept of Computer System Design.

Section-C

(Long Answer Type Questions)

Note : Attempt any **two** questions out of the following **five** questions. Each question carries 22.5 marks. Answer is required in detail. $2 \times 22.5 = 45$

9. What is understood by term MIS? Give various characteristics of MIS. How does it assist managers in their day to day functioning?
10. How would you distinguish between Data and Information? Can data for one person be information for another? How?
11. What is a Decision Support System? Discuss its components, characteristics and capabilities.

18070(CV-II)/3

P.T.O.

12. Explain the concept of MIS-Business Planning. Also discuss the tools of planning.
13. What is development of MIS? Explain the development of long range plans of the MIS.

<https://www.ccsustudy.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से

D (Printed Pages 4)
(20721) Roll No.
BBA-VI Sem.

18068 (CV-II)

B.B.A. Examination, June-2021

STRATEGIC MANAGEMENT AND

BUSINESS POLICY

(BBA-602)

Time : 1½ Hours] [Maximum Marks : 75

Note : Attempt all the Sections as per instructions.

Section-A

(Very Short Answer Type Questions)

Note : Attempt any two questions. Each question carries 7.5 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words. $2 \times 7.5 = 15$

✓ 1 What is Business policy?

P.T.O.

2. What is policy making?
3. How do you distinguish between a strategy and synergy?
4. What is resource analysis?
- ✓ 5. What is environmental analysis?

Section-B

(Short Answer Type Questions)

Note : Attempt any one question out of the following three questions. Each question carries 15 marks. Short answer is required not exceeding 200 words. $1 \times 15 = 15$

6. What is the importance of Business policy? Discuss the process of development of Business policy.
7. Justify the need to define the relevant environment for an organisation.

8. ✓ What are the responsibilities of Top Management?

Section-C

(Long Answer Type Questions)

Note : Attempt any two questions out of the following five questions. Each question carries 22.5 marks. Answer is required in detail. $2 \times 22.5 = 45$

9. ✓ What are the different aspects of the nature of business policy? Discuss each one of them with the help of suitable examples? <https://www.ccsustudy.com>
10. Describe the different aspects of environmental scanning necessary for identifying opportunities and threats in a company's environment?
11. What is divestment strategy? What approaches could be adopted to adopt a divestment strategy?

12. Discuss the nature of interrelationship that exists between the formulation and implementations of strategy.
13. ✓ Write a note on synergy as a component of strategy and its relevance.

D (Printed Pages 4)
(20721) Roll No.
BBA-VI Sem.

18068 (CV-II)

B.B.A. Examination, June-2021

STRATEGIC MANAGEMENT AND

BUSINESS POLICY

(BBA-602)

Time : 1½ Hours] [Maximum Marks : 75

Note : Attempt all the Sections as per instructions.

Section-A

(Very Short Answer Type Questions)

Note : Attempt any two questions. Each question carries 7.5 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words. $2 \times 7.5 = 15$

✓ 1. What is Business policy?

P.T.O.

2. What is policy making?
3. How do you distinguish between a strategy and synergy?
4. What is resource analysis?
- ✓ 5. What is environmental analysis?

Section-B

(Short Answer Type Questions)

Note : Attempt any one question out of the following three questions. Each question carries 15 marks. Short answer is required not exceeding 200 words. $1 \times 15 = 15$

6. What is the importance of Business policy? Discuss the process of development of Business policy.
7. Justify the need to define the relevant environment for an organisation.

8. ✓ What are the responsibilities of Top Management?

Section-C

(Long Answer Type Questions)

Note : Attempt any two questions out of the following five questions. Each question carries 22.5 marks. Answer is required in detail. $2 \times 22.5 = 45$

9. ✓ What are the different aspects of the nature of business policy? Discuss each one of them with the help of suitable examples? <https://www.ccsustudy.com>
10. Describe the different aspects of environmental scanning necessary for identifying opportunities and threats in a company's environment?
11. What is divestment strategy? What approaches could be adopted to adopt a divestment strategy?

12. Discuss the nature of interrelationship that exists between the formulation and implementations of strategy.
13. ✓ Write a note on synergy as a component of strategy and its relevance.

D (Printed Pages 4)
(20721) Roll No.
BBA - VI Sem.

18071 (CV-II)

B.B.A. Examination, June-2021

AUDITING

(BBA-605)

Time : 1½ Hours] [Maximum Marks : 75

Note : Attempt questions from **all** Sections as per instructions.

Section-A

(Very Short Answer Type Questions)

Note : Attempt any **two** questions. Each question carries 7.5 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words. $2 \times 7.5 = 15$

1. What is internal audit?
2. Explain Balancesheet Audit?

P.T.O

3. What are the different types of Auditor's Report?
4. Describe the advantages of continuous Audit?
5. Explain Tax Audit?

Section-B

(Short Answer Type Questions)

Note : Attempt any **one** question out of the following **three** questions. Each question carries **15** marks. Short answer is required not exceeding 200 words. $1 \times 15 = 15$

6. Discuss the advantages of interim audit? What precautions should be taken while performing test checking?
8. Explain the significance of Vouching?

18071(CV-II)/2

Section-C

(Long Answer Type Questions)

Note : Attempt any **two** questions out of the following five questions. Each question carries 22.5 marks. Answer is required in detail? $2 \times 22.5 = 45$

9 ✓ "Auditing begins where Accountancy ends" Explain. How does Accountancy differ from Auditing?

10. What is Audit programme? What steps would you take before commencing the actual work of Audit of a business?

11. ✓ "An Auditor is a watch-dog and not a blood-hound". Give your comments on the above statement and discuss the duties and liabilities of an Auditor.?

18071(CV-II)/3

P.T.O.

12. What is Cost Audit. Describe the provisions of Companies with regard to the Cost Audit?
13. What points are to be Considered for audit of a University?

<https://www.ccsustudy.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से

D (Printed Pages 7)
(20721) Roll No.
B.B.A.- VI Sem.

18069 (A) (CV-II)
B.B.A. Examination, June-2021
GOODS AND SERVICES TAX
(BBA-603)
(New)

Time : 1½ Hours [Maximum Marks : 75]

Note : Attempt **all** the sections as per instructions.

नोट : सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए।

Section - A/ खण्ड - अ

(Very Short Answer Type Questions)

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : This Section contains **five** questions. Attempt any **two** questions. Each question carries 7.5 marks. $2 \times 7.5 = 15$

नोट : इस खण्ड में पाँच प्रश्न हैं, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंकों का है।

P.T.O.

1. Define Goods under GST Act.

माल को माल सेवा कर अधिनियम में परिभाषित कीजिए।

2. Explain the term "Business Vertical".

व्यवसाय ऊर्ध्वाधर शब्द को समझाइये।

3. Who may become the member of GST Council?

माल सेवा कर परिषद का कौन सदस्य हो सकता है?

4. Narrative the Capital structure of GSTN.

माल सेवा कर नेटवर्क के पूंजी ढाँचे का बयान करिए।

5. Who is to pay tax under reverse charge?
रिवर्स चार्ज में कर का भुगतान कौन करता है?

Section - B/ खण्ड - ब

(Short Answer Type Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : This section contains **three** questions.

Attempt any **one** question. Each

question carries 15 marks. $1 \times 15 = 15$

18069 (A) (CV-II)/2

नोट : इस खण्ड में तीन प्रश्न हैं। किसी एक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है।

नोट : इस खण्ड में तीन प्रश्न हैं। किसी एक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है।

6. Explain in brief the various types of GST. माल सेवा कर के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में समझाइये।
7. Mr Nimit is a travel agent, he booked domestic Air tickets worth Rs. 6,00,000 in the month of December, 2020 and booked International tickets worth Rs. 14,00,000. Determine the value of supply of services for the month of December, 2020.

6. Explain in brief the various types of GST. माल सेवा कर के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में समझाइये।
7. Mr Nimit is a travel agent, he booked domestic Air tickets worth Rs. 6,00,000 in the month of December, 2020 and booked International tickets worth Rs. 14,00,000. Determine the value of supply of services for the month of December, 2020. <https://www.ccsustudy.com>

मि. निमित एक ट्रैवल एजेंट हैं, उसने दिसम्बर, 2020 में रु. 6,00,000 के घरेलू उड़ान के टिकट बुक किये और रु. 14,00,000 के अन्तर्राष्ट्रीय टिकट बुक किये। दिसम्बर, 2020 माह के लिए उसकी सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए।

मि. निमित एक ट्रैवल एजेंट हैं, उसने दिसम्बर, 2020 में रु. 6,00,000 के घरेलू उड़ान के टिकट बुक किये और रु. 14,00,000 के अन्तर्राष्ट्रीय टिकट बुक किये। दिसम्बर, 2020 माह के लिए उसकी सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए।

8. What is the difference between composite supply and Mixed supply?
समग्र आपूर्ति एवं मिश्रित आपूर्ति में क्या अंतर है?

Section - C/ खण्ड - स

(Descriptive Answer Questions)

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : This section contains **six** questions, attempt any **two** questions. Each question carries 22.5 marks. Answer must be descriptive. $2 \times 22.5 = 45$

नोट : इस खण्ड में छः प्रश्न हैं, किन्हीं दो को हल कीजिये। प्रत्येक 22.5 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है।

9. Explain the composition scheme.
Elaborate its merits and demerits.

कंपोजिशन स्कीम को समझाइये। इसके गुण-दोषों की विस्तृत विवेचना करिए।

10. What are the main features of GST payment process?
माल सेवा कर भुगतान प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

11. What is the procedure for registration under GST Act? Explain mandatory registration.

माल सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है? अनिवार्य पंजीकरण को समझाइये।

12. Write short note on the following :

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (a) Debit note and Credit note.

डेबिट नोट एवं क्रेडिट नोट।

- (b) Difference between Tax invoice and Retail invoice.

कर-बीजक एवं फुटकर बीजक में अन्तर करिए।

13/ Which returns are mandatory to file under GST law? Explain any three in details.

माल सेवा कर कानून में कौन-सी रिटर्न अनिवार्य हैं? किन्हीं तीन को विस्तार से समझाइये।

14. Rubal sells an A.C. to Soham for Rs. 80,000 offering a 2% discount. Rubal incurs Rs. 2,400 as packing charges on said A.C. to encourage prompt payment Rubal offers additional 2% discount, if Soham pays within 15 days.

Determine -

- (a) The value of A.C. shown in invoice if GST is 12%
- (b) If Soham pays within 15 days, Then show the amount of credit note.

रुबल - एक ए.सी. सोहम को रु. 80,000 में 2% छूट के प्रस्ताव पर विक्रय करती हैं। उस ए.सी. पर रुबल

द्वारा रु. 2400 पैकिंग व्यय किया जाता है। यदि सोहम 15 दिनों में भुगतान करता है तो उसे प्रोत्साहन के रूप में 2% अतिरिक्त छूट का प्रस्ताव भी दिया गया।

निर्धारित करिए :

- (क) बीजक में दर्शायी गई ए.सी. के मूल्य को, यदि जी.एस.टी. की दर 12% है।
- (ख) यदि सोहम 15 दिनों में भुगतान करता है, तो क्रेडिट नोट की राशि बताइये।

D (Printed Pages 4)
(20721) Roll No.
BBA-VI Sem.

3. What is EU?
4. Discuss export assistance.
5. What are the functions of IMF?

18067 (CV-II)

B.B.A. Examination, June-2021

Section-B

INTERNATIONAL TRADE

(Short Answer Type Questions)

(BBA-604)

Note : Attempt any **one** questions out of the following **three** questions. Each question carries 15 marks. Short answer is required not exceeding 200 words. 1×15=15

Time : 1½ Hours] [Maximum Marks : 75

Note : Attempt questions from **all** sections as per instructions.

Section-A

(Very Short Answer Type Questions)

Note : Attempt any **two** questions. Each question carries 7.5 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words. 2×7.5=15

1. Explain recent trends in World Trade
2. Discuss balance of payments. ✓

6. ✓ What is meant by balance of trade? Explain the difference between balance of trade and balance of payments.
7. Explain the meaning and main objectives of monetary policy.
8. Discuss the basics of International Trade.

P.T.O.

8067 (CV-II)/2

Section-C

(Long Answer Type Questions)

Note : Attempt any two questions, out of the following five questions. Each question carries 22.5 marks. Answer is required in detail. $2 \times 22.5 = 45$

9. Explain the modern theory of International Trade. <https://www.ccsustudy.com>
10. Discuss the importance of Foreign Trade in economic growth of a country.
11. Discuss the role of International economic institutions in economic growth in India.
12. Explain the recent trends in India's foreign trade and discuss projects & consultancy exports.

18067 (CV-II)/3

P.T.O.

13. Discuss India's Trade Policy, export assistance and marketing plan for exports.

<https://www.ccsustudy.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से

D (Printed Pages 4)
(20721) Roll No.
BBA-VI Sem.

18070 (CV-II)

B.B.A. Examination, June-2021

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

(BBA-601)

Time : 1½ Hours] [Maximum Marks : 75

Note : Attempt questions from **all** Sections as per instructions.

Section-A

(Very Short Answer Type Questions)

Note : Attempt any **two** questions. Each question carries 7.5 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words. $2 \times 7.5 = 15$

✓ 1. What do you understand by Management Information System?

P.T.O.

2. Explain the Organizational Decision making.

✓ 3. What do you mean by System Analysis?

4. Discuss ERP (Enterprise Resource Planning).

5. What is Business Planning?

Section-B

(Short Answer Type Questions)

Note : Attempt any **one** question out of the following **three** questions. Each question carries 15 marks. Short answer is required not exceeding 200 words. $1 \times 15 = 15$

6. Explain the strategies for determining the Information requirement.

✓ 7. Explain process of the Management.

18070(CV-II)/2

8. Describe the concept of Computer System Design.

Section-C

(Long Answer Type Questions)

Note : Attempt any **two** questions out of the following **five** questions. Each question carries 22.5 marks. Answer is required in detail. $2 \times 22.5 = 45$

9. What is understood by term MIS? Give various characteristics of MIS. How does it assist managers in their day to day functioning?
10. How would you distinguish between Data and Information? Can data for one person be information for another? How?
11. What is a Decision Support System? Discuss its components, characteristics and capabilities.

18070(CV-II)/3

P.T.O.

12. Explain the concept of MIS-Business Planning. Also discuss the tools of planning.
13. What is development of MIS? Explain the development of long range plans of the MIS.

<https://www.ccsustudy.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से